

BIHAR BOARD CLASS - X

2015

HINDI (हिन्दी)

प्रथम पाली (First Sitting)

समय 3 घंटे 15 मिनट]

[पूर्णांक : 100

1. (अ) निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें-

एक गुरुकुल था। विशाल और प्रख्यात उसके आचार्य भी बहुत विद्वान थे। एक दिन आचार्य ने सभी छात्रों को आँगने में एकत्रित किया और उनके सामने एक समस्या रखी कि उन्हें अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की आवश्यकता है। कुछ धनी परिवार के बालकों ने अपने घर से धन लाकर देने की बात कही। किंतु , गुरुजी ने कहा कि इस तरह तो आपके घर वाले मुझे लालची समझेंगे। लेकिन , फिर गुरुजी ने एक उपाय बताया कि सभी विद्यार्थी चुपचाप अपने-अपने घरों से धन लाकर दें , मेरी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन , यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सभी छात्र तैयार हो गए। इस तरह गुरुजी के पास धन आना शुरू हो गया। लेकिन , एक बालक कुछ नहीं लाया। गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या उसे गुरु की सेवा नहीं करनी है ? उसने उत्तर दिया , "ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी , लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई देख न रहा हो।" गुरुजी ने कहा , "कभी तो ऐसा समय आता होगा जहाँ कोई न देख रहा हो।" गुरुजी का भी ऐसा ही आदेश था। तब वह बालक बोला , "गुरुदेव ठीक है , पर ऐसे स्थान में कोई रहे न रहे , मैं तो वहाँ रहता हूँ। कोई दूसरा देखे न देखे मैं स्वयं तो अपने कुकर्मों को देखता हूँ।" आचार्य ने गले लगाते हुए कहा , "तू मेरा सच्चा शिष्य है। क्योंकि , तूने गुरु के कहने पर भी चोरी नहीं की। यह तेरे सच्चे चरित्र का सबूत है।" तू ही मेरी कन्या का सच्चा और योग्य वर है। अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। विद्या ऊँचे चरित्र का निर्माण करती है और उन्नति के शिखर पर ले जाती है।

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें-

(क) आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर क्या कहा ?

(ख) कुछ न ला सकनेवाले शिष्य पर आचार्य क्यों प्रसन्न हुए ?

(ग) आचार्य को किस धन की खोज थी? वह उन्हें किस रूप में मिला ?

(घ) गुरुकुल के आचार्य किस प्रकार के व्यक्ति थे ?

(ड) लोग उन्नति के शिखर पर कैसे पहुंचते हैं?

(च) इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दें।

(ब) निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे -

सांप्रदायिक दंगों में भगतजी सड़क पर नाच नाचकर हिंदू-मुस्लिम एकता के पद गाते थे। दोनों तरफ के गुंडों को अपनी फिल्म पिलाते थे। उनके मन की भड़ास सुनते और शैली में उपदेश देते। एक बार भगतजी कहीं गायब हो गए। किसी मुसीबत में फँसे मुसलमान परिवार को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने गए थे। हिंदुओं ने मुसलमानों और मुसलमानों ने हिंदुओं पर आशंका की। बड़ी भीषण तैयारियाँ हुईं , भगतजी प्रकट हो गए और गलियों में फूटा कनस्तर बजा-बजाकर गाते फिरे 'या जग अंधा मैं केहि समुझावों ।

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें-

(क) भगतजी किस प्रकार के उपदेश गुंडों को देते थे ?

(ख) भगतजी के गायब हो जाने का क्या कारण था ?

(ग) भगतजी के गायब हो जाने से समाज में क्या प्रतिक्रिया हुई ?

(घ) 'या जग अंधा मैं केहि समुझावों' का तात्पर्य क्या है ?

2. दिए गए संकेत विन्दुओं के आधार पर लगभग 250 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखें।

(क) वृक्षारोपण

(i) भूमिका

(ii) वृक्ष की महत्ता

(iii) वृक्ष से लाभ

(iv) कटाई की प्रतिपूर्ति

(v) उपसंहार

(ख) मेरे प्रिय नेता

(i) भूमिका

(ii) बाल्यावस्था (जीवनी)

(iii) राजनीति

(iv) उनकी महत्ता (देशहित में)

(v) उपसंहार

(ग) स्त्री शिक्षा

(i) भूमिका

(ii) माँ भी, बेटी भी, दोनों रूपों में

(iii) कारण

(iv) समानाधिकार

(v) सही दिशा

(vi) उपसंहार

3. राजगीर - भ्रमण की चर्चा करते हुए अपनी दीदी के पास एक पत्र लिखें।

अथवा

जिला के ग्रामीण जलापूर्ति के अभियंता (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) को पाइपलाइन की मरम्मत करने हेतु एक आवेदनपत्र लिखें।

4. Missing Question

5. Missing Question

6. Missing Question

7. Missing Question

8. मैक्समूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों ?

9. परम्परा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों ?

10. गाँधीजी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं?
11. देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आयी ?
12. Missing Question
13. कवि रसखान ने माली-मालिन किसे कहा है और क्यों कहा है?
14. दिनकर ने जनता के स्वप्न का चित्र किस तरह खींचा है ?
15. कवयित्री के अनुसार बेटे को आँसू कब आता है और क्यों ?
16. 'हमारी नींद' शीर्षक कविता की सार्थकता पर विचार करें।
17. Missing Question
18. 'दही वाली मंगम्मा' कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया?
19. 'बहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र-चित्रण करें।
20. 'नगर' शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें।